

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 12/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** have furnished a return in **FORM GSTR-3B** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such tax payers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** for all the tax periods in the financial year 2019-20.”

By order,

Jagdish Chander Sharma,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 13/2020—राज्य कर

शिमला-2, 23 जून, 2020

संख्या:ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4 / 2020.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 70/2019—राज्य कर तारीख 31 दिसम्बर, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ (10)25/2019 के तहत तारीख 02 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को